

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जी की जयंती के अवसर पर किया गया मानव श्रृंखला का निर्माण एवं सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं एवं नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक कर दिलाई गयी शपथ...।

जिलाधिकारी महोबा श्री मनोज कुमार व पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा आज दिनांक **23.01.2023** को नेता जी सुभाष चन्द्र बोस जयंती के अवसर पर क्षेत्राधिकारी यातायात सुश्री हर्षिता गंगवार की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट परिसर महोबा में सर्व प्रथम नेता जी की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए मानव श्रृंखला का निर्माण कर सड़क सुरक्षा माह/यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया

इस दौरान जनपद शहर क्षेत्र में पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगणों, विभिन्न कालेज के छात्र/छात्राओं व आमजन के साथ मानव श्रृंखला का निर्माण करते हुए यातायात सुरक्षा माह/यातायात जागरूकता सम्बन्धित शपथ लेते हुए यातायात सम्बन्धी नियमों के पालन करने के प्रति जागरूक कर नियमों को पालन करने हेतु सभी को निर्देशित किया गया, वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने व सीट बेल्ट लगाने की हिदायत भी दी गयी, यह भी बताया गया की यातायात नियमों का पालन करके ही वाहन दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सकती है। वाहन पर निर्धारित संख्या से अधिक सवारी न बैठाने, निर्धारित गति सीमा में ही वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन को प्रयोग कदापि न करने, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन चलाने हेतु प्रोत्साहित न करने, शराब पीकर वाहन न चलाने, शीत ऋतु में पड़ने वाले कोहरे से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु वाहनों में रिफ्लेक्टर टेप लगाने तथा अन्य लोगों को भी इनका पालन करने हेतु प्रोत्साहित करने की अपील भी की गई।



थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 23.01.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी सदर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक श्री बलराम सिंह द्वारा गठित टीम निरीक्षक श्री लाखन सिंह द्वारा तलाश वांछित/वारण्टी के दौरान थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 29/2023 धारा 147/148/149/341/323/307 भादवि से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त आमिर खान पुत्र अनीश खाँन उम्र 19 वर्ष को शेखूनगर महोबा पावर हाउस के सामने से गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

आमिर खान पुत्र अनीश खाँन उम्र 19 वर्ष निवासी कुम्हारन मुहल्ला भटीपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा हाल मुकाम शेखूनगर थाना कोतवाली नगर महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्री लाखन सिंह प्रभारी चौकी भटीपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा
2. कां० दीपेश कुमार यादव
3. कां० अजीत सिंह



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।

आज दिनांक **23.01.2023** को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील, स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी ।

जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।

यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर **108** वाहनों के ई-चालान किये गये।

